



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 18/19 जून, 2022

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना गुलावठी

कुख्यात गोकशों से थाना गुलावठी पुलिस की हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित कुख्यात गोकश आसिफ उर्फ बिल्ला तथा दूसरा बदमाश फईमू घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी करने के उपकरण, नशीली दवाई, एक मोटर साइकिल व अवैध असलहा, कारतूस बरामदा।

अवगत कराना है कि दिनांक 18/19.06.2022 की रात्रि में थाना गुलावठी पुलिस को एक अभिसूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंदपुरा के जंगल में कुछ गोकश गोकशी की घटना कारित करने वाले है इस सूचना पर गुलावठी पुलिस ग्राम चंदपुरा को जाने वाले रास्ते पर भट्टे के पास चैकिंग करने लगी, कुछ देर बाद एक बाइक पर दो युवक आते दिखायी दिये। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार दोनों अभियुक्त पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे जिसमें पुलिस पार्टी बाल-बाल बची, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बाइक सवार दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गये जिनको पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। **पकड़े गये बदमाशों की पहचान आसिफ उर्फ बिल्ला पुत्र समीम निवासी ग्राम कमालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर व फईमू पुत्र नन्हें निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई।** घायल बदमाशों को उपचार हेतु सीएचसी गुलावठी में भर्ती कराया गया है। पकड़े गये बदमाश आसिफ उर्फ बिल्ला व फईमू शातिर किस्म का कुख्यात गोकश/बदमाश है गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ उर्फ बिल्ला थाना गुलावठी पर पंजीकृत मुअंस-147/22 धारा 307 भादवि व थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मुअंस-371/22 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- आसिफ उर्फ बिल्ला पुत्र समीम निवासी ग्राम कमालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2- फईमू पुत्र नन्हें निवासी ग्राम इस्माईलपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस
- 2- 01 मोटर साइकिल प्लेटिना
- 3- गोकशी के उपकरण, नशीली दवाई



मीडिया सेल बुलंदशहर